

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1

मोबाइल नं- 8986915381 ईमेल- ee.kishanganj.rwd2@gmail.com

पत्रांक- 364(अउठ) / किशनगंज दिनांक- 31/3/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल किशनगंज-1

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी- सह- सचिव, ब्राडा।

विषय :- MMGSY(ST) के अंतर्गत किये गए कार्यों के विरुद्ध आवंटन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में कहना है कि इस प्रमंडलाधीन MMGSY(ST) के अंतर्गत किये गए कार्यों के विरुद्ध भुगतान करने के लिए विहित प्रपत्र में भर कर कुल 31.53346 लाख (एकतीस लाख त्रेपन्न हजार तीन सौ छयालिस रूपये) मात्र के राशि की मांग की जाती है।

अतः सादर अनुरोध है कि अधियाचित राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन


3.5.2022

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल किशनगंज-1

Utilization Certificate-up to March-2022 For MMGSY (ST) under office of the Executive Engineer RWD Work Division, Kishanganj-1

From

Name of PIU/Executive Engineer RWD, Work Division, Kishanganj-1

To

Secretary cum Empowered Officer,
BRRDA (MMGSY), Patna (Bihar).

Sl. No.	Name Scheme	Sanction No. & Date with Amount	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particular
1	2	3	4	5
1	Construction of Rural roads under MMGSY (ST).	Secretary cum Empowered Officer, BRRDA (MMGSY), Patna (Bihar). Total Amounting Rs. 7443.99456 (Seventy Four Crore Forty Three Lac Ninety Nine Thousand Four Hundred Fifty Six) only.	Rs. 7443.99456 (Seventy Four Crore Forty Three Lac Ninety Nine Thousand Four Hundred Fifty Six) only.	Certified that out of Rs. 7443.99456 (Seventy Four Crore Forty Three Lac Ninety Nine Thousand Four Hundred Fifty Six) only. of grants in aid sanctioned during and up to year 2020-21 in favor of officer-in-charge/PIU/E.E, RWD work Division, Kishanganj-1. A sum Rs. 7443.99456 (Seventy Four Crore Forty Three Lac Ninety Nine Thousand Four Hundred Fifty Six) only has been utilize for the purpose of MMGSY (ST) Programmed fund as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.00 Only remaining unutilized as the end of the period under report.


Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grants in-aid was sanction have been only fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which in was sanctioned.

Kind of Check Exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintend Engineer.
- Periodic Inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction Material have tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer.
- All other codas formalities have been observed.

Physical Progress achieved.

- Construction of road works.
- Construction of CD works.


Divisional Accounts Officer
Engineer RWD works division, Kishanganj-1


Signature of PIU/Executive
RWD works division, Kishanganj-1

Rural Works Department
MMGSY (ST) Allotment Requisition
Name of Division:-RWD Works Division, Kishanganj-1

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor (in English)	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Allotment Received (in Lacs)	Total Expenditure as per MIS (in Lacs)	Value of Measurement (in Lacs)	Current Demand (in Lacs) (11-10)	Remarks
				Length (in Km)	Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maintenance (in Lacs)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2019-20	Chichora Road to Harijan Tola	Mahafuj Alam	1.000	83.05100	75.50931	12.92581	0.00000	0.00000	31.53346	31.53346	Ongoing
			Total:-	1.000	83.05100	75.50931	12.92581	0.00000	0.00000	31.53346	31.53346	

(Signature)

Divisional Accounts Officer
Works Division, Kishanganj-1

(Signature)
Executive Engineer
Works Division, Kishanganj-1

नोट:-

1. खर्च का मिलान MIS से होना आवश्यक है।
2. अधियाचित राशि का पथवार मापीपुस्त की प्रथम एवं अन्तिम पेज की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न होना आवश्यक है।
3. पूर्व निर्गत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है।
4. योजनावार सभी पथों का अधियाचना एक साथ भेजना आवश्यक है।
5. निर्गत राशि का डी0 सी0 विपत्र 15 दिनांक के अन्दर ब्राडा कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।